

## PoK में अशांति फैलाने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक

### प्रलम्बित के लिये:

[पाकस्तान अधकृत कश्मीर](#), मोस्ट फेवरड नेशन (MFN) का दर्जा, पुलवामा हमला, नियंत्रण रेखा (LoC), अनुच्छेद 370, इंडो-पैसिफिक

### मेन्स के लिये:

भारत और पाकस्तान के बीच व्यापार व्यवधानों का प्रभाव, पाकस्तान अधकृत कश्मीर (PoK), पाकस्तान में अस्थिरता, भारत के लिये अवसर और खतरे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

बढ़ती कीमतों और आर्थिक संकट के कारण [पाकस्तान अधकृत कश्मीर](#) (Pakistan-occupied Kashmir- PoK) में वरीध परदर्शन तेज़ हो गए हैं। क्षेत्र की अशांतिके कारण हसिक झड़पें हुईं, जससे मौतें हुईं। [उच्च मुद्रास्फीति](#) से चहिनति पाकस्तान के आर्थिक संकट ने जीवन की स्थिति खराब कर दी है।

- वर्ष [2019 पुलवामा हमले](#) के बाद भारत द्वारा पाकस्तानी सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाने के बाद PoK में व्यापार प्रभावति हुआ, जससे वत्तीय तनाव बढ़ गया।

## पाकस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों संघर्ष कर रही है?

- [उच्च मुद्रास्फीति](#): मई 2022 से [उपभोक्ता मुद्रास्फीति](#) 20% से ऊपर रही है, जो मई 2023 में 38% तक पहुँच गई है।
- [ऊर्जा लागत](#): पाकस्तान में ऊर्जा की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जससे समग्र मुद्रास्फीति में योगदान हुआ है। इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- [व्यापार व्यवधान](#): वर्ष 2019 में [पुलवामा हमले](#) के बाद, भारत ने पाकस्तान पर आरोप लगाया और उसका सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most Favored Nation- MFN) का दर्जा रद्द कर दिया तथा [सूखे खजूर](#), [सैंधा नमक](#), [सीमेंट](#) एवं [जपिसम](#) जैसे पाकस्तानी उत्पादों पर 200% आयात शुल्क लगा दिया।
  - भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरफि सामान्य व्यापार गतविधियों को फरि से शुरू करने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
  - पुलवामा के बाद, भारत ने पाकस्तान पर सीमा पार आतंकवाद, [तस्करी](#) और [मनी लॉन्ड्रिंग](#) का भी आरोप लगाया, जसके कारण [नियंत्रण रेखा \(Line of Control- LoC\)](#) के पार व्यापार नलिंबति हो गया।
  - इससे भारत में पाकस्तान के नरियात में भारी गरिगट आई, जो वर्ष 2018 में औसतन 45 मलियन अमेरिकी डॉलर प्रतमाह से घटकर मार्च और जुलाई 2019 के बीच केवल 2.5 मलियन अमेरिकी डॉलर प्रतमाह रह गया।
  - भारत को नरियात में उल्लेखनीय कमी ने व्यापारियों को गंभीर रूप से प्रभावति किया है, वशिष रूप से PoK जैसे क्षेत्रों में, जससे आर्थिक अस्थिरता में सहायक हुआ है।
    - भारत द्वारा [अनुच्छेद 370](#) को रद्द करने से स्थिति और जटलि हो गई है, क्योंकि पाकस्तान इसे वविदति क्षेत्र पर हमले के रूप में देखता है।
  - वर्ष 2021 में पाकस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन घरेलू दबाव और कश्मीर मुद्दे ने प्रगतारोक दी।
  - भारत और पाकस्तान के बीच व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति वर्ष 2019 से नलिंबति है।

## भारत पाकस्तान के साथ व्यापार संबंध फरि से शुरू क्यों नहीं करना चाहता?

- पाकस्तान के साथ भारत का व्यापार हमेशा इसके समग्र वदिशी व्यापार का एक छोटा सा हसिसा रहा है, जो इसके नरियात और आयात का 1% से भी कम है।

- राजनीतिक अस्थिरता, कम वदेशी भंडार, सख्त वीजा नीतियाँ और भारत की तुलना में पाकिस्तान के छोटे बाज़ार का आकार पाकिस्तान के साथ व्यापार को भारत के लिये एक जोखिम भरा प्रस्ताव बनाता है।
- भारत में कुछ लोगों का मानना है कि **पाकिस्तान की सेना से न्यूनतम खतरा, जो उसकी पश्चिमी सीमाओं पर व्यस्त है, व्यापार के माध्यम से विश्वास-नरिमाण** उपायों की आवश्यकता को कम कर देता है।

## प्रतबंध से पूर्व भारत-पाकिस्तान व्यापार:

- वर्ष 1996 से पाकिस्तान को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most-Favoured Nation- MFN) का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसने **1,209 उत्पादों की एक नकारात्मक सूची बनाए रखी है, जिन्हें भारत से आयात करने की अनुमति नहीं है।**
  - **हालाँकि, वाघा-अटारी सीमा** से पाकिस्तान द्वारा 138 उत्पादों को आयात करने अनुमति दी गई।
- इसके बावजूद, **भारत के पास पाकिस्तान पर एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिेश था**, वह पाकिस्तान से आयात की तुलना में पाकिस्तान को अधिक सामान और सेवाएँ नरियात करता था।
  - भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव ने व्यापार को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर व्यापार पर प्रतबंध लगे तथा व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हुईं।
- **पाकिस्तान को भारतीय वस्तुओं का नरियात:** वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा पाकिस्तान को नरियात किये गए कुल माल का आधा **भागकपास और जैविक रसायनों** का था। अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं में प्लास्टिक, टैनिंग/रंगाई के अर्क, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल थे।
- **पाकिस्तान से भारतीय आयात:** वर्ष 2018-19 में भारत ने पाकिस्तान से खनजि ईंधन और तेल, खाद्य फल एवं मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर, लावा, राख तथा चमड़े का आयात किया।
  - प्रतबंध के बाद कई वस्तुओं के आयातों में काफी कमी आई। एकमात्र वृद्धि **फार्मास्युटिकल उत्पादों** में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने **कोविड-19 महामारी** के दौरान दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दवा उत्पादों और जैविक रसायनों का आयात किया था।

## भविष्य में भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्ता की क्या संभावनाएँ हैं?

- ऐतिहासिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच सफल वार्ताएँ अक्सर नज्दी और गोपनीय रूप से ही संपन्न हुई हैं और वर्ष 2024 के भारतीय आम चुनाव के बाद दोनों देश 'शांत कूटनीति' का विकल्प अपना सकते हैं।
  - **LoC पर नरितर युद्धविराम** और पुलवामा के बाद से आतंकवादी घटनाओं की अनुपस्थिति **भारत-पाकिस्तान संबंधों** को फरि से शुरू करने के लिये एक अनुकूल आधार प्रदान करती है।
- बज़िनेस-टू-बज़िनेस लकिक और पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र के माध्यम से **अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया** में भारतीय व्यापार को सुवधाजनक बनाने की क्षमता का लाभ द्विपक्षीय व्यापार की वकालत के लिये उठाया जा सकता है।
- भारत-पाकिस्तान व्यापार संबंधों में सुधार से भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को भी बढ़ावा मलिक सकता है, जो **चीन के बढ़ते प्रभाव और भारत-प्रशांत पर भारत के फोकस** के कारण कम हो रहा है।

## पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) क्या है?

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** PoK ऐतिहासिक रूप से **जम्मू और कश्मीर रियासत** का हिस्सा था, जो वर्ष 1947 में वभिजन के बाद भारत में शामिल हो गया था।
  - हालाँकि, वर्ष 1947 में **पश्तूनी आदवासियों और पाकिस्तानी सेना** के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया था।
- **भौगोलिक वसितार:** PoK का क्षेत्रफल 13,297 वर्ग कि.मी. है और इसकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है। यह 10 ज़िलों में वभिजित है और इसकी राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद है।
  - वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने **शक्सगाम क्षेत्र** में इस भूमिका 5,000 वर्ग कि.मी. से अधिक भाग चीन को सौंप दिया।
- **गलितगति बाल्टिस्तान:**
  - **गलितगति बाल्टिस्तान (GB)** PoK के उत्तर में और पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में स्थित एक पृथक क्षेत्र है।
    - **GB को अंग्रेज़ों ने जम्मू के डोगरा शासक को पट्टे पर** दिया था और बाद में 1947 में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था।
- **प्रशासनिक स्थिति:** न तो PoK और न ही GB आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के चार प्रांतों के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध हैं।
  - दोनों को सीधे **इस्लामाबाद से शासित "स्वायत्त क्षेत्र"** माना जाता है, जो **कश्मीर वविद पर अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को हानि पहुँचाने से बचने के लिये** पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक कल्पना है।
- **भारत की स्थिति:** भारत के लिये **PoK और GB जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हैं**, जो वर्ष 1994 के संसदीय संकल्प के अनुसार देश का अभिन्न अंग है।



?????? ???? ?????:

**प्रश्न.** भारत और पाकस्तान के बीच सीमावर्ती समुदायों पर व्यापार नलिंबन का क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापार संबंधों को सामान्य बनाने के संभावित लाभों और इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

**प्रश्न.** सयिाचनि हमिनद कहाँ स्थति है? (2020)

- अकसाई चनि के पूरव में
- लेह के पूरव में
- गलिगटि के उत्तर में
- नुब्रा घाटी के उत्तर में

**उत्तर: (d)**

- सयिाचनि ग्लेशयिर हमिलय में पूरवी काराकोरम रेंज में प्वाइंट NJ9842 के ठीक उत्तर-पूरव में स्थति है, जहाँ भारत और पाकस्तान के बीच नरियंत्रण रेखा समाप्त होती है।
- इसे धरुवीय और उपधरुवीय कषेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशयिर होने का गौरव पूरूपत है।
- यह अकसाई चनि के पश्चमि में, नुब्रा घाटी के उत्तर में और गलिगति के लगभग पूरव में स्थति है।

??????????:

**प्रश्न.** "भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरकि मामलों में पाकस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तकषेप सार्क (दकषणि एशियाई कषेत्रीय सहयोग संगठन) के भवषिय के लयि सहायक नहीं हैं।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016)

**प्रश्न.** आतंकवादी गतविधियिों और परस्पर अवशिवास ने भारत-पाकस्तान संबंधों को धूमलि बना दिया है। खेलों और सांसकृतकि आदान-पूरदानों जैसी मृदु शकतकि सि सीमा तक दोनों देशों के बीच सदभाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)

